

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 603 ]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 नवम्बर 2010—अग्रहायण 3, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2010

क्र. 7027-377-इक्कीस-अ(प्रा.).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 (क्रमांक 24, सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

## MADHYA PRADESH BILL

No. 24 OF 2010.

THE MADHYA PRADESH KASHTHA CHIRAN (VINIYAMAN)  
SANSHODHAN VIDHEYAK, 2010.**A Bill further to amend the Madhya Pradesh Kashtha Chiran (Viniyaman) Adhiniyam, 1984.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India as follows:—

- Short title.** 1. This Act may be called the Madhya Pradesh **Kashtha Chiran (Viniyaman)** Sanshodhan Adhiniyam, 2010.
- Amendment of Section 2.** 2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Kashtha Chiran (Viniyaman) Adhiniyam, 1984 (No. 13 of 1984), in clause (f), the words and bracket “ circular saw (cutter) the diameters of which is not more than twelve inches” shall be omitted.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Circular saw (cutter) the diameters of which is not more than twelve inches, is not included in the definition of “saw mill” provided in the Madhya Pradesh Kashtha Chiran (Viniyaman) Adhiniyam, 1984 (No. 13 of 1984). This technical shortcoming leads to use of such cutters in conversion of illegally cutted timber. In order to check the illegal cutting of timber, it is decided to amend the definition of “saw mill” suitably.

2. Hence this Bill.

BHOPAL :  
DATED the 19<sup>th</sup> November, 2010.

SARTAJ SINGH  
*Member-in-charge.*